SrI Sarasvati Namostute - Arabhi

SrI sarasvati namO(a)stu tE- rAgaM Arabhi - tALaM rUpakam

English

pallavi
SrI sarasvati namO(a)stu tE
varadE para dEvatE
(madhyama kAla sAhityam)
SrI pati gaurI pati guru guha vinutE
vidhi yuvatE

samashTi caraNam
vAsanA traya vivarjita -
vara muni bhAvita mUrtE
vAsavAdyakhila nirjara -
vara vitaraNa bahu kIrtE dara -
(madhyama kAla sAhityam)
hAsa yuta mukhAmburuhE
adbhuta caraNAmburuhE
saMsAra bhItyApahE
sakala mantrAkshara guhE

Devanagari

श्री सरस्वति नमोऽस्तु ते- रागं आरभि - ताळं रूपकम्

पल्लवि
श्री सरस्वति नमोऽस्तु ते
वरदे पर देवते
(मध्यम काल साहित्यम्)
श्री पति गौरी पति गुरु गुह विनुते
विधि युवते

समष्टि चरणम्
वासना त्रय विवर्जित -
वर मुनि भावित मूर्ते
वासवाद्यखिल निर्जर -
वर वितरण बहु कीर्ते दर -
(मध्यम काल साहित्यम्)
हास युत मुखाम्बुरुहे
अद्भुत चरणाम्बुरुहे
संसार भीत्यापहे
सकल मन्त्राक्षर गुहे

Tamil

ஶ்ரீ ஸரஸ்வதி நமோऽஸ்து தே- ராக3ம் ஆரபி4 - தாளம் ரூபகம்

பல்லவி
ஶ்ரீ ஸரஸ்வதி நமோऽஸ்து தே
வரதே3 பர தே3வதே
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
ஶ்ரீ பதி கௌ3ரீ பதி கு3ரு கு3ஹ வினுதே
விதி4 யுவதே

ஸமஷ்டி சரணம்
வாஸனா த்ரய விவர்ஜித -
வர முனி பா4வித மூர்தே
வாஸவாத்3யகி2ல நிர்ஜர -
வர விதரண ப3ஹு கீர்தே த3ர -
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
ஹாஸ யுத முகா2ம்பு3ருஹே
அத்3பு4த சரணாம்பு3ருஹே
ஸம்ஸார பீ4த்யாபஹே
ஸகல மந்த்ராக்ஷர கு3ஹே

Telugu

శ్రీ సరస్వతి నమోఽస్తు తే- రాగం ఆరభి - తాళం రూపకమ్

పల్లవి
శ్రీ సరస్వతి నమోఽస్తు తే
వరదే పర దేవతే
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
శ్రీ పతి గౌరీ పతి గురు గుహ వినుతే
విధి యువతే

సమష్టి చరణమ్
వాసనా త్రయ వివర్జిత -
వర ముని భావిత మూర్తే
వాసవాద్యఖిల నిర్జర -
వర వితరణ బహు కీర్తే దర -
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
హాస యుత ముఖాంబురుహే
అద్భుత చరణాంబురుహే
సంసార భీత్యాపహే
సకల మంత్రాక్షర గుహే

Kannada

ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ- ರಾಗಂ ಆರಭಿ - ತಾಳಂ ರೂಪಕಮ್

ಪಲ್ಲವಿ
ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ
ವರದೇ ಪರ ದೇವತೇ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಶ್ರೀ ಪತಿ ಗೌರೀ ಪತಿ ಗುರು ಗುಹ ವಿನುತೇ
ವಿಧಿ ಯುವತೇ

ಸಮಷ್ಟಿ ಚರಣಮ್
ವಾಸನಾ ತ್ರಯ ವಿವರ್ಜಿತ -
ವರ ಮುನಿ ಭಾವಿತ ಮೂರ್ತೇ
ವಾಸವಾದ್ಯಖಿಲ ನಿರ್ಜರ -
ವರ ವಿತರಣ ಬಹು ಕೀರ್ತೇ ದರ -
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಹಾಸ ಯುತ ಮುಖಾಂಬುರುಹೇ
ಅದ್ಭುತ ಚರಣಾಂಬುರುಹೇ
ಸಂಸಾರ ಭೀತ್ಯಾಪಹೇ
ಸಕಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರ ಗುಹೇ

Malayalam

ശ്രീ സരസ്വതി നമോഽസ്തു തേ- രാഗം ആരഭി - താളം രൂപകമ്

പല്ലവി
ശ്രീ സരസ്വതി നമോഽസ്തു തേ
വരദേ പര ദേവതേ
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
ശ്രീ പതി ഗൌരീ പതി ഗുരു ഗുഹ വിനുതേ
വിധി യുവതേ

സമഷ്ടി ചരണമ്
വാസനാ ത്രയ വിവര്ജിത -
വര മുനി ഭാവിത മൂര്തേ
വാസവാദ്യഖില നിര്ജര -
വര വിതരണ ബഹു കീര്തേ ദര -
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
ഹാസ യുത മുഖാമ്ബുരുഹേ
അദ്ഭുത ചരണാമ്ബുരുഹേ
സംസാര ഭീത്യാപഹേ
സകല മന്ത്രാക്ഷര ഗുഹേ